



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1862]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2011/आश्विन 6, 1933

No. 1862]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2011/ASVINA 6, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2011

सं. 77 (आरई-2010)/2009—2014

विषय : खाद्य तेल के निर्यात पर रोक को 30-9-2012 तक बढ़ाना और 10,000 टन की सीमा के तहत ब्रान्डेड उपभोक्ता पैक में खाद्य तेल के निर्यात पर 1-11-2011 से 31-10-2012 तक छूट ।

का.आ. 2251(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009—2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. 7 दिनांक 30-9-2010 के साथ पठित अधिसूचना सं. 85 दिनांक 17-3-2008 में तत्काल प्रभाव से संशोधन करती है ।

2. खाद्य तेलों के निर्यात पर निषेध प्रारंभ में अधिसूचना सं. 85 दिनांक 17-3-2008 द्वारा 17-3-2008 से एक वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया था जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था और इस समय अधिसूचना सं. 7 दिनांक 30-9-2010 के द्वारा यथा-अधिसूचित यह निषेध 30-9-2011 तक है । अब खाद्य तेल के निर्यात पर रोक 30-9-2012 तक बढ़ा दी गई है ।

3. उपर्युक्त प्रतिबंध में छूट देते हुए, समय-समय पर जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के जरिए कुछ रियायतें प्रदान की गई हैं, नामतः (क) अरंडी के तेल के निर्यात (ख) कोचीन पत्तन से नारियल के तेल के निर्यात (ग) निर्यात किए जाने वाले गैर खाद्य

माल के उत्पादन के लिए 100% निर्यातान्मुख एककों को डी टी ए से खाद्य तेलों (इनपुट कच्चे माल के रूप में) के मान्य निर्यात (घ) आई टी सी (एचएस) कोड 15159010, 15159020, 15159030, 15159040, 15179010, और 15219020 के तहत लघु वन्य उत्पादों से विनिर्मित तेलों के निर्यात, यद्यपि खाद्य हों (ड.) आर्गेनिक खाद्य तेल के 10,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष निर्यात ।

4. इसके अतिरिक्त, दिनांक 1-11-2010 की अधिसूचना सं. 9, के अनुसार 10,000 टन की सीमा के तहत 5 किग्रा. तक के ब्रान्डेड उपभोक्ता पैक में खाद्य तेल का निर्यात अभी 1-11-2010 से 31-10-2011 तक अनुमत है । अब वही छूट 31-10-2012 तक निम्नानुसार बढ़ा दी गई है:

- पत्तनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् निर्यात सीमा-शुल्क ई डी आई पत्तनों से अनुमत होंगे;
- निर्यात की अवधि 1-11-2011 से 31-10-2012 तक होगी;
- निर्यातों के लिए अनुमत कुल मात्रा की सीमा 10,000 टन है; और
- पैकिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् 5 किग्रा. तक के ब्रान्डेड उपभोक्ता पैक में निर्यात की अनुमति होगी;

5. इस अधिसूचना का प्रभाव :

खाद्य तेलों के निर्यात पर निषेध को 30-9-2012 तक बढ़ा दिया गया है । परन्तु यह उपर्युक्त पैरा (3) और (4) में यथाउल्लिखित रियायतों/छूट पर लागू नहीं होगा । अधिसूचना सं. 60 दिनांक 20-11-2008 के अनुसार मछली के तेल का निर्यात आगे भी मुक्त रहेगा ।

[फा. सं. 01/91/180/774/एसएम 10/निर्यात]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2011

No. 77 (RE-2010)/2009—2014

Subject : Extension of ban on export of edible oils up to 30-9-2012 and exemption for export of edible oil in branded consumer packs with a ceiling of 10,000 tons from 1-11-2011 to 31-10-2012.

S.O. 2251(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009—2014 (as amended from time to time), the Central Government hereby amends, with immediate effect, Notification No. 85 dated 17-3-2008 read with Notification No. 7 dated 30-9-2010, as amended from time to time.

2. Export of edible oils was initially prohibited for a period of one year with effect from 17-3-2008 *vide* Notification No. 85 dated 17-3-2008 which was extended from time to time and is presently up to 30-9-2011 notified through Notification No. 7 dated 30-9-2010. Now the ban on export of edible oil is extended up to 30-9-2012.

3. In relaxation of above prohibition, certain exemptions have been granted through various notifications issued from time to time namely : (a) export of Castor Oil (b) export of coconut oil from Cochin Port (c) Deemed export of edible oils (as input raw material) from

DTA to 100% EOUs for production of non-edible goods to be exported (d) export of oil produced out of minor forest produce even if edible, ITC (HS) Code 15159010, 15159020, 15159030, 15159040, 15179010 and 15219020 (e) export of 10,000 MTs per annum of organic edible oils.

4. In addition, export of edible oils in branded consumer packs of up to 5 Kgs. with ceiling of 10,000 tons is presently permitted from 1-11-2010 to 31-10-2011 in terms of Notification No. 9 of 1-11-2010. Now the same dispensation has been extended up to 31-10-2012 as follows :—

- (i) There shall be no change in ports i.e. exports will be permitted from Custom EDI Ports;
- (ii) The period of export will be from 1-11-2011 to 31-10-2012;
- (iii) The total quantity ceiling permitted for exports is 10,000 tons; and
- (iv) There shall be no change in packing i.e. exports permitted in branded consumer packs up to 5 Kgs.

5. Effect of this notification :

Prohibition on export of edible oils has been extended up to 30-9-2012. But, the same will not apply to relaxations/exemption as mentioned in para (3) and (4) above. Export of fish oil continues to be free as per Notification No. 60 dated 20-11-2008.

[F. No. 01/91/180/774/AM 10/Export Cell]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade